



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2008 (श्रावण 25, 1930)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2008 (SRAVANA 25, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. ए-22012/1/2008-पीएमए-कोन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री बी. डी. रंजन ने प्रधान मंत्री कार्यालय में अपना पदभार छोड़ दिया है और दिनांक 31.7.2008 (अपराह्न) से उनकी सेवाओं को गृह मंत्रालय को सौंपा जाता है।

पी. के. राय, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. आरएस./1074/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री परमोत्तम दास मेहरा, उप निदेशक 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./1514/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री सूर्यदेव प्रसाद, उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./1513/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज, संयुक्त निदेशक (भाषांतरण) 31 जुलाई 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 अगस्त 2008

सं. आरएस./3/7(1)/2008/45-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) श्री कृष्ण मोहन अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के

वेतनमान में उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री बृज मोहन अरोड़ा द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाएगा।

3. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, जिन्हें पहले दिनांक 20 नवम्बर, 2007 को अधिसूचना सं. आरएस./3(xi)/2007/121-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) के रूप में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/7(1)/2008/44-कार्मिक -राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्री सतिन्दर सिंह मट्टू, अनुवादक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सतिन्दर सिंह मट्टू द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को उस ग्रेड में वरिष्ठता तथा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जाएगा।

3. श्री बंसी लाल, जिन्हें पहले दिनांक 9 मई, 2008 का अधिसूचना सं. आरएस./3/7(1)/2008/25-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली -110001, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. 12016/4/2005-अ.सां.से., दिनांक 4 अगस्त, 2006--सक्षम प्राधिकारी अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ख, राजपत्रित) नियमावली 2002 के नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागीय उम्मीदवार को सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II (6500-10,500/- रुपए के वेतनमान में) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

कर्मचारी कोड, नाम एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि

2835, श्री डी. सी. उप्रेती, 25 अगस्त 2006

सं. 12016/4/2006-अ.सां.से., दिनांक 6 दिसम्बर, 2006--सक्षम प्राधिकारी अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ख, राजपत्रित) नियमावली 2002 के नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागीय उम्मीदवार को सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II (6500-10,500/- रुपए के वेतनमान में) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

कर्मचारी कोड, नाम एवं कार्यभार ग्रहण की तिथि

2316, श्री एरिक बेक, 22 दिसम्बर, 2006

सं. 12016/3/2006 अ.सां.से., दिनांक 12 दिसम्बर, 2006--सक्षम प्राधिकारी अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (समूह ख, राजपत्रित) नियमावली 2002 के नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागीय उम्मीदवारों को सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-II (6500-10,500/- रुपए के वेतनमान में) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी कोड	नाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि
1	2	3	4
		श्री. श्रीमती	
1.	2812	आर. धिल्लोगम	22 दिसम्बर 2006
2.	2824	एम. थामिलसेलवी	15 दिसम्बर 2006
3.	2836	बी. एम. शिरे	17 अक्टूबर 2007
4.	2837	बी. काशी नाथ शास्त्री	15 जनवरी 2007
5.	2838	ए. ए. जुनैद	15 जनवरी 2007
6.	2839	एम. के. रैना	04 अप्रैल 2007
7.	2841	एम. के. कौल	03 जनवरी 2007
8.	2842	ए. के. पांडा	31 जुलाई 2007
9.	2843	आई. अहमद	03 अक्टूबर 2007
10.	2844	सी. डी. परमार	31 दिसम्बर 2007
11.	2845	जे. आई. बराड	31 अक्टूबर 2007
12.	2846	श्रीमती रीता बाला दास	28 दिसम्बर 2006
13.	2858	जी. कं. पारिख	12 अक्टूबर 2007
14.	2860	भनीमेश देब	05 फरवरी 2007
15.	2861	मुनिन्द्र कुमार चक्रवर्ती	11 मई 2007
16.	2862	बी. चक्रवर्ती	03 अक्टूबर 2007
17.	2863	बलकृष्णैया के.	04 जनवरी 2007
18.	2864	एम. बास्करन मुथूसमान्डी	10 सितम्बर 2007
19.	2865	एम. एडवर्ड	06 सितम्बर 2007
20.	2866	आर. कलाधरन	06 सितम्बर 2007
21.	2867	कं. चन्द्र कुमार	06 सितम्बर 2007
22.	2868	ए. मोहोयुडीन एम.	09 अप्रैल 2007
23.	2869	के. कृष्ण राव पी.	05 जनवरी 2007
24.	2870	डी. के. भटनागर	19 दिसम्बर 2006
25.	2871	नरेश कुमार त्रिवेदी	05 मार्च 2007
26.	2873	एम. के. त्यागी	22 फरवरी 2007
27.	2874	आर. पी. सेनी	02 जनवरी 2007

1	2	3	4
		श्री/श्रीमती	
28.	2875	इकबाल वारिस	30 मार्च 2007
29.	2876	सुरीनाथन के.एल.के.	15 दिसम्बर 2006
30.	2877	पी.पी. पटवारी	01 मार्च 2007
31.	2878	पी.एन. पंजिता	15 दिसम्बर 2006
32.	2879	बी.एस. भान	04 अप्रैल 2007
33.	2880	के. मलिकार्जुन	05 फरवरी 2007
34.	2881	विजया सारथी एम.	05 जनवरी 2007
35.	2882	उदय शंकर चाला	20 अप्रैल 2007
36.	2883	बासवा गोपाल कुचीभोटला	28 दिसम्बर 2006
37.	2885	राजेन्द्र सेठी	12 जनवरी 2007

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. ए-38013/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--श्री रामकिशन, सहायक प्रबन्धक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, अपनी अधिष्ठाता की आयु पूरी होने पर तारीख 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर. सी. गाबा, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2008

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.वि. (वि.का.)--इस विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2008 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2008 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड-ग आशुलिपिकों की विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में, 6,500-10,500/- के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति को, दिनांक 31.12.2008 तक छ; महीने की अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड क और ख (विलयित) नियमित आशुलिपिकों के उपलब्ध होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	प्रदीप मुखर्जी	वि. का. शाखा सचिवालय, कोलकाता
2.	एन. के. ग्रोवर	वि. का. प्रतिनियुक्ति आधार पर दिल्ली केन्द्रीय आबकारी मंडल में
3.	ओम प्रकाश शर्मा	वि. का.
4.	सुश्री बिमला वर्मा	वि. का.
5.	वी. आर. डी. नम्बूदरीपाद	वि. वि.
6.	आर. वी. एस. भानुप्रसाद	वि. वि.
7.	आर. एस. शुक्ला	वि. का., ए.टी.एफ.ई.
8.	सुश्री एस. के. धवन	वि. वि.
9.	श्रीमती नवलजीत के. घई	वि. का. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उधार पर
10.	सुश्री नीलम खत्री	वि. का.
11.	मो. हुसैन	वि. वि., प्रतिनियुक्ति आधार पर गोपनीय अधीक्षक
12.	एस. के. चट्टराज	वि. का., शाखा सचिवालय, कोलकाता
13.	सुश्री पी. के. सतीदेवी	वि. का.
14.	सतीश चन्द्र	वि. का., विधि आयोग
15.	सुश्री मंजू बाला मेहता	वि. का., विधि आयोग
16.	एस. सी. अग्रवाल	वि. का., विधि आयोग
17.	सुश्री शशी गुप्ता	वि. का.
18.	सुश्री इंदु चोपड़ा	वि. का., विधि आयोग
19.	ए. के. सुद	वि. का., विधि आयोग
20.	आर. के. वैद	वि. वि.
21.	वी. एस. रावैर	वि. वि.
22.	टी. एस. पांडियन	वि. का., शाखा सचिवालय, चैन्नै
23.	वीरेन्द्र कु. जायस (अनु. जाति)	वि. वि.
24.	भवानी प्रसाद	वि. वि.
25.	सुश्री सिखा खुराना	वि. का.
26.	महेश कुमार (अनु. जाति)	वि. का.

1	2	3
	(सर्वश्री)	
27.	रंजीत सिंह	वि. वि.
28.	आर. करुणाकरण	वि. का.
29.	एस. एस. ग्रेवाल	वि. का.
30.	सुरेन्द्र सिंह (अनु. जाति)	वि. वि.
31.	सुश्री ए. के. ढीगरा	वि. का., के. अधि. अनु.
32.	सुश्री अनिता (अनु. जाति)	वि. का.
33.	नेत्र पाल सिंह (अनु. जाति)	वि. का., के. अधि. अनु.
34.	राजेन्द्र कुमार (अनु. जाति)	वि. वि.

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उपरोक्त अवधि के लिए उन्हें ग्रेड में अतिरिक्त समय तक बने रहने अथवा ग्रेड क और ख (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32015/02/2008-प्रशा. IV (वि. का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 जून, 2008 के का. जा. सं. 7/16/2007-सीएस. I(एस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में सहायक, श्री के. एस. बुधवार को दिनांक 7 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. ए-32013/2/2005-प्रशा. IV (वि. का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जून, 2008 के का. जा. सं. 4/4/2008-सीएस. I(सी.) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री सी. ओ. राजन, ग्रेड I (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव) को दिनांक 24.07.2008 के पूर्वाह्न से विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें ग्रेड में अतिरिक्त समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसे किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. ए-38012/4/2008-प्रशा. IV (वि. का.)--अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री श्रवण कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, दिनांक 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 जुलाई 2008

सं. के-13031/1/2008-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती जया राय को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से दो वर्ष की अवधि के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13024/3/2007-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कं. कण्णन को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. के-13012/2/2008-यू.एस. II(पार्ट)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. सतीश चन्द्र को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13024/1/2008-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायाधिवृ श्री के. वेंकटरामन को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. के-13024/2/2008 यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री क्रिष्णश्यामि चन्द्र, (ii) श्री बी. रामसुब्रमणियन,

(iii) श्री सा. चणिकुमार, और (iv) श्री आ. सेल्वम को, उसी शरीयता क्रम में, दिनांक 31 जुलाई, 2008 से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिवेक, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.—अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिज़ोरम संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री बी. बी. सक्सेना, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, 30 जून, 2008 के अपराह्न से सेवा मुक्त हो गए हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. ए-32013/6/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के रूप में गृह मंत्रालय में वेतन श्रेणी रुपये 10,000-325-15,200/- में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एस. पी. पंत 10.04.2008 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती एस. सुधा 25.04.2008 (पूर्वाह्न)
3. श्री ब्रजेश सिक्का 30.04.2008 (अपराह्न)

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति अनिश्चितकाल तक ग्रेड में निरन्तर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के दावे करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
- (iii) उपर्युक्त नियुक्ति आदेश केन्द्रीय प्रशासनिक आधिकारण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के एम. ए. सं. 2170/2006 ओ. ए. सं. 2793/2005, एम. ए. सं. 2710/2005 के विषय पर आधारित होगा।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. ए-32013/1/2008-प्रशा. I (राज.) खण्ड--राष्ट्रपति, श्री चानन राम, के.स.से. को 1 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक,

कार्मिक, तथा प्रशिक्षण विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2008-प्रशा. I (राज.) खण्ड--राष्ट्रपति, श्री कनाद भगत, के.स.से. को 27 जून, 2008 (अपराह्न) से, अगले आदेशों तक, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I (जी.)--दूरसंचार विभाग से स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, श्री अमरजीत सिंह को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतनमान रुपये, 10,000-325-15,200/- में दिनांक 23.05.2008 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I (जी.)--राष्ट्रपति, डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्रीमती आर. गायत्री को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतनमान रुपये, 10,000-325-15,200/- में दिनांक 5 मई, 2008 अपराह्न से अगले आदेशों तक ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I (जी.)--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री जी. श्रीनिवासन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतनमान रुपये, 10,000-325-15,200/- में दिनांक 4 जुलाई, 2008 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I (जी.)--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री आर. के. गुप्ता को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वेतनमान रुपये, 10,000-325-15,200/- में दिनांक 1 जुलाई, 2008 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त 2008

सं. 20/जी/1175/प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री नरेश नारद, भा.प्र.से (सेवा-नियुक्त) जो इस समय लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्य हैं, को 1 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से 04 मई, 2009 तक की अवधि, जब वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I(जी.)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, श्री आर. के. मोजा को, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से उनका स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 9 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा. I(जी.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग के के.स. सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी, श्री संदीप मुकर्जी को, दिनांक 30 जून, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में के.स. सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करती है।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. 19011/1/2008-प्रशा.(1)--राष्ट्रपति, श्री एन. मोहन रंगनाथन को 19 मई, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त और तैनात करती है।

वी. के. बाधवा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2008

सं. क्यू/पीए-1/50/2008--स्वर्गीय बी. वैकटेश्वर राव, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के अधिकारी, जो भारतीय दूतावास, कान्जल में कौन्सलर के पद पर पदस्थ थे, उनका सेवाकाल के दौरान 7 जुलाई, 2008 को देहांत हो गया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ.एस.पी. कैडर)

दिनांक 14 जुलाई 2008

सं. क्यू/पीए-1/51/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV के निम्नलिखित अधिकारियों को 2 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से

इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	प्रोन्नति के उपरांत ग्रेड
1.	सुश्री संगीता बी. पान	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
2.	श्री सम किशन कालश	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
3.	श्री आर. एल. कोली	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
4.	श्री अनिल के. शरण	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
5.	श्री अचल कुमार मलहोत्रा	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
6.	श्री डॉ. बी. स्नेह	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III
7.	श्री विक्रम मिश्री	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारियों ने भा.वि.से. के ग्रेड-IV में 02.07.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ.एस.पी. कैडर)

दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. क्यू/पीए-1/52/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री एस. एल. सागर, भारतीय कौन्सल जनरल सेंट डेनिस, 31 जुलाई 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

सं. क्यू/पीए-1/53/2008--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री आर. एल. कोली, कौन्सल भारतीय प्रधान कौन्सल कोहलसर्ग से 31 जुलाई 2008 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रुद्रा गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव (एफ.एस.पी. और कैडर)

कार्यालय : प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. डी-III/460/सीएफ-32/2007--भारत की राष्ट्रपति ने श्री रमेश सी. नायर की तिरुवर्णतपुर में रूसी परिसंघ के मानद कौन्सल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव में मान्यता दे दी है।

श्री रवीश सी. नायर को कौन्सली क्षेत्राधिकार में तिरुवर्णतपुर शहर होगा।

वी. के. शर्मा, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. एफ-24012/2/2005-पीए--सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) की शर्तों के अनुरूप और इस मंत्रालय की दिनांक 11 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. एफ-24012/2/2005-(पीए) का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मामलों के लिए, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है :--

1. उपसचिव (प्रशासन) : उत्प्रवास के विषयों से संबंधित मामलों को छोड़कर, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी मामले।
2. श्री वी. के. भाटिया : उत्प्रवास महसूलों के कार्यालय और उप सचिव उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों से संबंधित सभी मामले।
(उत्प्रवास सेवाएं)

एम. के. पाण्डेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. /2008 : (फा. सं. ए-32014/02/2008-प्रशा.-1क)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2008 के का. ज्ञा. सं. 5/6/2008-सीएस-II और व्यव. विभाग, संवर्ग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 26.06.2008 के का. ज्ञा. सं. क-32014/1/2008-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सुश्री कृष्णा कुमारी, कृषि मंत्रालय के संवर्ग में नियमित आशुलिपिक ग्रेड क और ख (विलयित) को दिनांक 16.08.2008 (पूर्वाह्न) से और 30.06.2008 तक या नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक या अगले आदेश होने तक या इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद में सुश्री कृष्णा कुमारी की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और प्रधान निजी सचिव के पद में अनिश्चित रूप से पद में बने रहने अथवा उस पद में बरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

भूपिन्दर सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 मई 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

फा. सं. ए-39012/06/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, दिनांक 10.04.2008 (अपराह्न) से श्री गणेश हवानूर, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बटूर को सरकारी सेवा से त्याग-पत्र को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

दिनांक 28 मई 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएँ

सं. 29/2008 (फा. सं. ए-39012/14/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, दिनांक 08.02.2008 (अपराह्न) से श्री अनिल कुमार, जे. डी. आर. सिस्टैट, बंगलौर को त्याग-पत्र को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2008

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनाएँ

सं. 30/2008 (फा. सं. ए-39012/15/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, मूलभूत नियमावली के नियम 56 के अंतर्गत दिनांक 01.06.2008 (अपराह्न) से श्री एस. जानकी रमण, सहायक निदेशक, निरीक्षण महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वेस्ट रिजनल यूनिट, मुम्बई को स्वीच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं। हालांकि इस आदेश से उन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सी.सी.एस. (पेन्शन) नियमावली के नियम 9 के अंतर्गत जारी रहेगी। यदि उनके खिलाफ कोई अन्य सिविल या आपराधिक कार्यवाही चल रही है या चलती है तो उन कार्यवाहियों पर भी इस सेवा निवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. 32/2008 (फा. सं. ए-38012/22/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम 48(i) के अंतर्गत श्री जे. बी. डिसूजा, सहायक आयुक्त, सेवा कर, पणजी (गोवा) को दिनांक 11.08.2008 (अपराह्न) से स्वीच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

सं. 33/2008 (फा. सं. ए-38012/20/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम 48(i) के अंतर्गत श्री आर. के. वैद्य, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बजट-I प्रभाग, कोलकाता VII को दिनांक 30.09.2008 (अपराह्न) से स्वीच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 31/2008 (फा. सं. ए-39012/02/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेन्शन) नियमावली 1972 के नियम 26 के अंतर्गत दिनांक 23.06.2008 (अपराह्न) से श्री एस. कन्नन, जो कि अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, चेन्नै के पद पर नियुक्त हैं, के सरकारी सेवा से त्यागपत्र को स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. पी.एफ.जी.(2154)प्रशा.1/2008--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सी.एस.एस. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री आर. एन. महतो को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 जुलाई 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. इस तारीख से उनका नाम विभाग के पत्रक से काट दिया जाएगा।

मीताली घोष, अवर सचिव

कर्मचारी निरीक्षण एकक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. बी.4/केबी/2003-क.नि.ए.--श्रीमती कमलेश भारद्वाज, उपसचिव (सी.एस.एस.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कर्मचारी निरीक्षण एकक, को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 जुलाई 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. इस तारीख से उनका नाम एकक के पत्रक से काट दिया जाएगा।

बी. एल. शर्मा, उप निदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2008

सं. 8(2)स्था./2006-एम.आर.टी.पी.सी.--एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (साधारण केन्द्रीय समूह 'ख', राजपत्रित) के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री चन्दन कुमार झा, सहायक, डीसीपीएस/आई.एच.क्यू.-रक्षा मंत्रालय (नौ सेना) को इस आयोग में अनुभाग अधिकारी समय वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/- के पद पर दिनांक 31 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि अथवा इस आयोग के समापन अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

आई. एस. सैन, संयुक्त निदेशक (अर्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2008

सं. 15/2008 (सं. ए-19011/20/2008-स्था.-I)--राष्ट्रपति, द्वारा श्री प्रदीप कुमार चौधरी, आईएएस (हरियाणा : 77) को दिनांक 29 मई 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

डॉ. आर. के. मित्रा, निदेशक

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. 14/2008 (फा. सं. ए-11013/01/2008-एचआरडी-1/3469)--राष्ट्रपति एतद्वारा गुजरात राज्य में मै. सूरत स्पेशल इकॉनॉमिक ज़ोन, सूरत द्वारा बहु उत्पाद एस ई ज़ेड और मण्डलस, आन्ध्र प्रदेश में मै. श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व सत्यवेदु रिजर्व इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड) प्रत्येक के लिए एक विकास आयुक्त के दो पदों को संवर्ग में शामिल करने की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मंजूरी देते हैं।

2. इसे आई डी स. 62/सी आर (एलएनबी)/2008 दिनांक 28.07.2008 और वाणिज्य विभाग के आदेश सं. ए-6(10)/2002-ई पो ज़ेड दिनांक 3 जुलाई, 2008 द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

(औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2008

सं. ए-12023/05/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी सुश्री चांदनी रैना को 14 फरवरी, 2008 से आगामी आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (वेतनमान : 12,000 375-16,500/- रुपये) नियुक्त करते हैं।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. ए-45011/1/2005-स्था.-I--श्रीमती रामा वेंकटरामन का नाम वर्ष 2004 के लिए आर्थिक ग्रेड 'क' तथा 'ख' (मिश्रित) को चयन सूची में सम्मिलित हो जाने पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. जा. सं. 5/18/2006-सीएस-2 दिनांक 16 नवम्बर, 2007 के तहत औद्योगिक

नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में उनका नामांकन हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें 1 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के सीएसएसएस संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव आशुलिपिक ग्रेड 'क' तथा 'ख' (मिश्रित) नियुक्त करते हैं।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2008

सं. ए-19011/721/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री डी. आर. एस. चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश-77) को दिनांक 10 मार्च 2008 को पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 11 मार्च 2008

सं. ए-19011/640/2003-स्था.-I--श्री अरुण कुमार झा, आई.ए. एस. (85) का केन्द्रीय कार्यकाल पूरा हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 11 मार्च, 2008 के अपराह्न से उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 11 मार्च, 2008 के अपराह्न से श्री अरुण कुमार झा को सेवाएं सूक्ष्म, लघु तथा उद्यम मंत्रालय के अधीन सीपी जारी है।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. ए-12023/01/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के सीएसएस संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री मधु कोश शर्मा (सीएसएस सं. 6240) को दिनांक 23 जून, 2008 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) नियुक्त करते हैं।

अवर सचिव के ग्रेड में अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति से उक्त अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित करने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 जून 2008 के आदेश सं. 05/01/2008-सीएस-I (डेस्क) में उल्लिखित शर्तों के अध्याधीन भी होगा।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. ए-12012/2/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, भारत संचार निगम लि. में श्री अनुज कुमार गोयल, एसबीई (सी) को 30.04.2008 (अपराह्न) से को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहने तक अथवा अगले आदेशों तक इसमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में कोयला राज्य मंत्री (श्री संतोष बागरोडिया) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

चन्द्र शेखर, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2008

सं. 5(7)/2008-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी, आई. ए.एस. (ए.पी.-74) को दिनांक 01.08.2008 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक सचिव, इस्पात मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. वैधीश्वर, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जुलाई 2008

सं. 17016/6/95-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार की सहमति से सक्षम प्राधिकारी ने श्री जी. सी. होशुर, भारतीय वन सेवा (हि. प्र. : 96) को हिमाचल प्रदेश संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में अंतः प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 20.06.2008 से 2 वर्ष के लिए बढ़ाने हेतु अनुमोदन दे दिया है।

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 10 जुलाई 2008

सं. 19011/13/2008-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के असम-मेघालय संवर्ग के 1986 बैच की अधिकारी डॉ. रंजना गुप्ता को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली में उप वन महानिरीक्षक के पद पर दिनांक 7 जुलाई, 2008 के अपराह्न से दिनांक 24.11.2010 तक की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

ए. के. लाल, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 जुलाई 2008

सं. ए-38011/1/2008-सी.एच.एस.-I--अधिवर्धिता प्राप्त कर लेने पर अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमीकृत संवर्ग/सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के निम्नलिखित डाक्टर जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा

अधिकारी (एन एफ एस जी) के पद पर कार्यरत थे नीचे उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए :--

क्र. सं.	आधिकारियों के नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख	संलग्न
1.	डॉ. एस. के. जैन	30.11.2007 (अपराह्न)	जी डी एम ओ
2.	डॉ. ए. के. कानगो	31.10.2007 (अपराह्न)	नियमितोक्त
3.	डॉ. (सुश्री) रमनी धुसू	31.12.2007 (अपराह्न)	नियमितोक्त
4.	डॉ. (सुश्री) मधु अस्थाना	31.10.2007 (अपराह्न)	नियमितोक्त
5.	डॉ. (सुश्री) कुसुम मेहरा	30.11.2007 (अपराह्न)	नियमितोक्त
6.	डॉ. (सुश्री) नीलम शर्मा	30.09.2007 (अपराह्न)	नियमितोक्त
7.	डॉ. (सुश्री) गुलशरण शर्मा	31.01.2008 (अपराह्न)	जी.डी.एम.ओ

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. 12025/27/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. माधवी माधुर गुप्ता को 19 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप-सर्वग में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2008

सं. ए-19011/2/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री जी. बालाचन्द्रन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (डब्ल्यू बी : 1977) को 18 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अरुण बरोका, निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2008

सं. ए-19012/9/2008-ईए--राष्ट्रपति, डॉ. दलीप सिंह, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई एस एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे टी एस) स्तर के एक अधिकारी को तदर्थ आधार पर अर्ध एवं सौंदर्यपूर्ण निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सांख्यिकीय सलाहकार के पद पर 19 मई 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2008

सं. ए-19012/10/2008-ईए--राष्ट्रपति, श्री सोमनाथ, भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) के कनिष्ठ समयमान (जे टी एस) स्तर के एक अधिकारी को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक के पद पर 30 जून, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2008

सं. 12022/5/2007-स्था.-I(भाग-1)--राष्ट्रपति, के. सचि, आशु. सेवा के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' के श्री अनिल कुमार को दिनांक 30 मई, 2008 (पूर्वाह्न) से 30.06.2008 तक की अवधि के लिए अथवा अगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के लिए उनका कोई दावा नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2008

सं. 27-2798/2008-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री के. एल. लाला को दिनांक 27 जून, 2008 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2008

सं. 27-2484/2002-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्रीमती रानी तलारेजा, अवर सचिव को दिनांक 4 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और उप सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता और नियमित प्रोन्नति के लिए उनका कोई दावा नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2008

सं. 27-2804/2008-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्रीमती उमा गोयल, मोरारजी (77) को दिनांक 23.07.2008 के पूर्वाह्न से उनकी अधिकृत अवधि 31.08.2012 अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो,

18,400-500-22,400/- रु. के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. 43-3/2007-बा. IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. अकाली सेना को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय बागवानी संस्थान, मेडजीफेबा, नागालैण्ड में 30.07.2008 के पूर्वाह्न से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगामी आदेश तक अल्पकालीन अनुबंध के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राम किशन, अवर सचिव

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
(पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग)

मुम्बई-400001, दिनांक 16 जुलाई 2008

सं. 2-54/2002ई. I--अभ्योहस्ताक्षरी, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में क. मात्स्यिकी वैज्ञानिक ग्रेड-II के पद पर (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित-अल्पिक वर्गीय) रु. 6,500-200-10,500/- वेतनमान में प्रत्येक के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं। उन्हें पदोन्नति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा-धीन रखा गया है :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एम. विनोद कुमार, व. वैज्ञानिक सहायक	09.01.2006 पूर्वा.
2.	श्री जे. जयचन्द दास, व. वैज्ञानिक सहायक	12.01.2006 पूर्वा.
3.	श्री अशोक एस. कदम, व. वैज्ञानिक सहायक	12.01.2006 पूर्वा.
4.	श्री एन. उन्नीकृष्णन, व. वैज्ञानिक सहायक	12.01.2006 पूर्वा.
5.	श्री मानस कुमार सिन्हा, व. वैज्ञानिक सहायक	12.01.2006 पूर्वा.
6.	श्री अंशुमान दास, व. वैज्ञानिक सहायक	02.02.2006 पूर्वा.

डॉ. वी. एस. सोमवंशी, महानिदेशक

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. ए-19011/6/2008-स्थापना--सुश्री रुबिना अली की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2008 के आदेश सं. 4/4/2008-सी.एस. I (डी) के जरिए संस्कृति मंत्रालय में उनकी तैनात किए जाने पर, सुश्री रुबिना अली ने 4 जुलाई, 2008 से संस्कृति मंत्रालय में अपनी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अ. मुरुगैयन, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. ए-19011/2/2001-स्थापना-I--श्री सुदेश कुमार, उप सचिव संस्कृति मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु होने पर 30.06.2008 (अपरह्र) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

अ. मुरुगैयन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जुलाई 2008

सं. ए-32013/1/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/1/2008-सी.एस. I (डेस्क) दिनांक 10.04.2008 और 24.04.2008 के अनुसरण में, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (सीएसएल सं. 6178) के अनुभाग अधिकांश श्री जे. के. साहू को इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 10.04.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने या स्थायी नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2008

सं. 11019/1/2005-स्थापना(टीए)--राष्ट्रपति, सचिवालय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 23.06.2008 के कार्यालय आदेश सं. 12015/3/2008-आईएसएस अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय के निदेशक श्री एस. के. दास को केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली में अपने नए पदभार ग्रहण करने हेतु 01.07.2008 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त करते हैं।

बी. एस. खर्माप्तांग, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2008

सं. 11019/1/2005-स्थापना-राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 23.06.2008 के कार्यालय आदेश सं. 12015/3/2008-आईएसएस तथा दिनांक 30.06.2008 के कार्यालय आदेश सं. ए-19011/5/2004-ईआई के अनुसरण में निदेशक श्रीमती जी. मैथिली को 01.07.2008 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जुलाई 2008

सं. ए-12023/2/2006-स्था-राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी कार्यालय) के दिनांक 24 जून, 2008 के आदेश सं. 4/9/2007-ईओ(एमएच-1) के अनुसरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के निजी सचिव श्री शिव करण शर्मा को दिनांक 1 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से कार्यभार से मुक्त करती है।

बी. डी. बरूआ, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. 2(1)/2007-कार्मिक-1-इस विभाग की दिनांक 04.05.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैयक्तिक सहायक, श्री भूषण कुमार की साइबर विनियम असीलोन प्राधिकरण के कार्यालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति की अर्थात् एतद्वारा दिनांक 04.05.2008 से अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाई जा रही है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. 4(240)/84-कार्मिक-1-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-'एफ', डॉ. अवधेश माधुर (कर्मचारी कोड सं. 80) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4(309)/86-कार्मिक-1-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-'एफ', श्री ए. के. जैन (कर्मचारी कोड सं. 118) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

सं. 4(165)/81-कार्मिक-1-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक-'एफ', श्री ए. एस. सन्धू (कर्मचारी कोड सं. 121) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. 3917/एनआईसी/2008-प्रशासन-II-श्रीमती रनीशा परीयत, वैज्ञानिक-बी (कर्मचारी कोड सं. 3917) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मेघालय राज्य केन्द्र, शिनांग का दिनांक 15.03.2003 को निधन हो गया।

सी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशासन-II)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2008

सं. ई.आर.बी.-1/2007/2/12-रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के निम्नलिखित सेलेक्शन ग्रेड अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से निदेशक ग्रेड (वेतनमान 14,300-18,300/- रुपये) में पदोन्नत किया गया है :-

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(श्री/सर्वश्री)	
1.	मनीष कुमार	21.07.2008 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री एस. आर. सेठ	15.07.2008 (अपराह्न)
3.	एन. सोमन	15.07.2008 (अपराह्न)
4.	आर. सी. बत्रा	16.07.2008 (पूर्वाह्न)
5.	पी. पी. गेरा	16.07.2008 (पूर्वाह्न)

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.-1/2007/2/12-श्री मदन लाल, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के ग्रेड-1 अधिकारी को 15.07.2008 के पूर्वाह्न से सेलेक्शन ग्रेड अर्थात् संयुक्त निदेशक/उप सचिव ग्रेड (वेतनमान 12,000-16,500/- रुपये) में पदोन्नत किया गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.जी.-I/2007/2/12--श्री डी. आर. मेहरा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के निदेशक ग्रेड के अधिकारी को 16.07.2008 के पूर्वाह्न से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अर्थात् कार्यपालक निदेशक के ग्रेड (वैतनमान 18,400-22,400/- रुपये) में पदोन्नत किया गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव,
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2008

सं. ए-32013/07/2007-ई-II--राष्ट्रपति, श्री जी. शरण, अपर महानिदेशक, जो केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी हैं, और वर्तमान में महानिदेशक (सड़क विकास) का अतिरिक्त भार ग्रहण किए हुए हैं, को दिनांक 24.07.2008 (पूर्वाह्न) से 26,000/- (स्वियर) वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में नियमित आधार पर महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. राव, अवर सचिव

सं. ए-32013/5/2006-ई-II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह क के निम्नलिखित अधिकारियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में नियमित आधार पर मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से और आगामी आदेशों तक रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में नियुक्ति करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियमित आधार पर मु.ई. (सिविल) के रूप में नियुक्ति की तारीख
	(सर्वश्री)	
1.	कमलेश कुमार	24.07.2008
2.	एस. के. मारवाह	25.07.2008
3.	आर. बी सिंह	24.07.2008
4.	अशोक कुमार	24.07.2008
5.	घो. एल. पटानकर	25.07.2008
6.	चमन लाल	24.07.2008

के. एस. राव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. ए-12022/1/2008-ई-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित ग्रेड-1 अधिकारी श्री उमा दत्त भार्गव अवर सचिव को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 04.07.2008 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर उम सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

पूर्णिमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. 15/2008 (फा. सं. 12/1/2008-प्रशा.2)--श्री किरान लाल, उप सचिव, विद्युत मंत्रालय, अधिवर्धित प्राप्त करने पर 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से, सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 31st July 2008

No. A.22012/1/2008-PMA—Shri V. D. Ranjan, Principal Private Secretary of CSSS has relinquished the charge of the post in the Prime Minister's Office and his services are placed at the disposal of Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of 31st July 2008.

P. K. ROY, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 31st July 2008

No. RS/1074/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Parshotam Das Mehra, Deputy Director retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

C. B. RAI, Jt. Dir.

No. RS/1513/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Mahabir Prasad Bhardwaj, Joint Director (Interpretation) retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

C. B. RAI, Jt. Dir.

No. RS/1514/Estt.(P)—On attaining the age of superannuation, Shri Suryadeo Prasad, Deputy Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

C. B. RAI, Jt. Dir.

The 1st August 2008

No. RS/3/7(1)/2008/45-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Brij Mohan Arora, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- on ad-hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

2. The service rendered on ad-hoc basis by Shri Brij Mohan Arora in the grade of Deputy Director (E&T) will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Shri Rajendra Singh Bisht, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director (E&T) on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3(xi)/2007/121-Perl. dated 20th November, 2007, has now been appointed on regular basis in that grade with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Dir.

No. RS/3/7(1)/2008/44-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sarinder Singh Mattu, Translator in the Rajya Sabha Secretariat to

officiate in the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- on ad-hoc basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

2. The service rendered on ad-hoc basis by Shri Sarinder Singh Mattu in the grade of Editor will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Shri Bansilal, who was earlier appointed to officiate as Editor on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3/7(1)/2008/25-Perl. dated 9th May, 2008, has now been appointed on regular basis in that grade with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Dir.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME
IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 21st July 2008

No. 12016/4/2006-SSS dated 4th August 2006—The Competent Authority is pleased to appoint the following departmental candidate as Statistical Investigator Grade-II (in the pay scale of Rs. 6500—10500/-) under Rule 9 of the Subordinate Statistical Service (Group B, Gazetted) Rules-2002 :—

Employee code	Name	Date of Joining
2835	Shri/Smt. Km. D. C. Upreti	25 Aug 06

No. 12016/4/2006-SSS dated 6th December, 2006—The Competent Authority is pleased to appoint the following departmental candidate as Statistical Investigator Grade-II (in the pay scale of Rs. 6500—10500/-) under Rule 9 of the Subordinate Statistical Service (Group B, Gazetted) Rules-2002 :—

Employee code	Name	Date of Joining
2316	Shri/Smt. Km. Eric Beck	22 Dec 06

No. 12016/3/2006-SSS dated 12th December, 2006—The Competent Authority is pleased to appoint the following departmental candidates as Statistical Investigator Grade-II (in the pay scale of Rs. 6500—10500) under Rule 9 of the Subordinate Statistical Service (Group B, Gazetted) Rules-2002 :—

Sl. No.	Employee code	Name	Date of Joining
1	2	3	4
		Shri/Smt. Km.	
1.	2812	R. Balingan	22 Dec 06
2.	2824	M. Thirunelveli	15 Dec 06
3.	2836	V. M. Kishore	17 Oct 07
4.	2837	B. Kashi Nath Shastri	15 Jan 07

1	2	3	4
5.	2838	A. U. Junaid	15 Jan 07
6.	2839	M. K. Raina	04 Apr 07
7.	2841	M. K. Kaul	03 Jan 07
8.	2842	A. K. Panda	31 Jul 07
9.	2843	I. Ahmed	03 Oct 07
10.	2844	C. D. Parmar	31 Dec 07
11.	2845	J. I. Barad	31 Oct 07
12.	2846	Mrs. Reena Bala Das	28 Dec 06
13.	2858	G. K. Parikh	12 Oct 07
14.	2860	Animesh Deb	05 Feb 07
15.	2861	Munindra Kr. Chakraborty	11 May 07
16.	2862	P Chakraborty	03 Oct 07
17.	2863	Balakrishnaiah K.	04 Jan 07
18.	2864	M. Baskaran Murthasamandy	10 Sep 07
19.	2865	S. Edward	06 Sep 07
20.	2866	R. Kaladharan	06 Sep 07
21.	2867	K. Chandra Kumar	06 Sep 07
22.	2868	A. Mohiuddin M	09 Apr 07
23.	2869	V. Krishna Rao P	05 Jan 07
24.	2870	D. K. Bhatnagar	19 Dec 06
25.	2871	Dinesh Kumar Trivedi	05 Mar 07
26.	2873	M. C. Tyagi	22 Feb 07
27.	2874	R. C. Saini	02 Jan 07
28.	2875	Iqbal Waris	30 Mar 07
29.	2876	Soorianathan K. L. K	15 Dec 06
30.	2877	P. P. Patwari	01 Mar 07
31.	2878	P. N. Pandita	15 Dec 06
32.	2879	B. S. Bhan	04 Apr 07
33.	2880	K. Matlikarjun	05 Feb 07
34.	2881	Vijaya Saradhi M.	05 Jan 07
35.	2882	Uday Shankar Challa	20 Apr 07
36.	2883	Basava Gopal Kuchibhotla	28 Dec 06
37.	2885	Rajendra Sethy	12 Jan 07

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
VIDHI SAHITYA PRAKASHAN
New Delhi, the 31st July 2008

No. A.38013/3/2008-VSP(A)—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Kishan, Assistant Manager, Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, will relinquish the charge of the said post with effect from the afternoon of the 31st July, 2008 and retire from Government service on the aforesaid date.

R. C. GABA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th July 2008

No. A-32015/3/2006-Admn.IV(LA)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 30th Jan, 2008 and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/8/2006-CS-II dated 1.7.2008, the President is pleased to extend appointment of the following Grade 'C' stenographers of CSSS cadre as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6500—10500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs for a further period of six months upto 31.12.2008 or till regular Stenos Grade 'A&B' (Merged) of CSSS become available or until further orders, whichever is earlier :—

S.No.	Name	Present place of posting
1	2	3
	S/Shri/Smt./Km.	
1.	Prodip Mukherjee	LA, Br. Sectt., Kolkata
2.	N. K. Grover	LA, on depu. to Delhi Central Excise Zone
3.	Om Prakash Sharma	LA
4.	Bimla Verma	LA
5.	V. R. D. Nambodiripad	ID
6.	R. V. S. Bhanuprasad	ID
7.	R. S. Shukla	LA, ATFE
8.	S. K. Dhawan	ID
9.	Nawaljit K. Ghai	LA (on loan to M/o Petroleum & Natural Gas)
10.	Neelam Khatri	LA
11.	Mohd. Hussain	ID, on deputation as Confid. Supdt.
12.	S. K. Chattaraj	LA, Br. Sectt., Kolkata
13.	P. K. Sathy Devi	LA
14.	Satish Chandra	LA, LC
15.	Manju Bala Mehta	LA, LC
16.	S. C. Aggarwal	LA, LC
17.	Shashi Gupta	LA
18.	Indu Chopra	LA, LC
19.	A. K. Sood	LA, LC
20.	R. K. Vaid	ID
21.	V. S. Rathore	ID
22.	T. S. Pandian	LA, Br. Sectt., Chennai
23.	Virender Kr. Jatav (SC)	ID
24.	Bhawani Prasad	ID
25.	Shikha Khurana	LA

1	2	3
	S/Shri/Smt./Km.	
26.	Mahesh Kumar (SC)	LA
27.	Ranjit Singh	LD
28.	R. Karunakaran	LA
29.	S. S. Grewal	LA
30.	Surender Singh (SC)	LD
31.	A. K. Dhingra	LA, CAS
32.	Anita (SC)	LA
33.	Netra Pal Singh (SC)	LA, CAS
34.	Rajinder Kumar (SC)	LD

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) for the above said period.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

No. A-32015/02/2008-Admn.IV(LA)—In pursuance of Office Memorandum No. 7/16/2007-CS.I(S) dated 25th June, 2008 issued by Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint Shri K. S. Bhudhwar, Assistant in the CSS Cadre of the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), as Section Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the forenoon of 7th July, 2008 to 31st December, 2008 or until further orders.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 29th July 2008

No. A-32013/2/2005-Admn.IV (LA)—Pursuant to Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/4/2008-CS.I (D) dated 20th June, 2008, the President is pleased to appoint Shri C. O. Rajan, Grade-I (Under Secretary of CSS), as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on ad-hoc basis in Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice w.e.f. forenoon of 24.07.2008.

2. The ad-hoc promotion shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. It may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 31st July 2008

No. A-38012/4/2008-Adm.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Shrawan Kumar Sharma, Joint Secretary & Legal Adviser retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110 011, the 25th July 2008

No. K. 13031/1/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shrimati Jaya Roy, to be an Additional Judge of the Jharkhand High Court, for a period of two years with effect from the date she assumes charge of her office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13024/3/2007-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri K. Kannan, to be an Additional Judge of the Madras High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 29th July 2008

No. K. 13012/2/2008-US.II (Pt.)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. Satish Chandra, to be an Additional Judge of the Allahabad High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13024/1/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice K. Venkataraman, Additional Judge of the Madras High Court, to be a Judge of the Madras High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 30th July 2008

No. K. 13024/2/2008-US.I In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Krishnaswami Chandru, (ii) Shri V. Ramasubramanian, (iii) Shri S. Mani Kumar and (iv) Shri A. Selvam, to be Additional Judges of the Madras High Court, in the same order of seniority, for a period of two years with effect from 31st July, 2008.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 29th July 2008

No. 14031/1/2007-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri B. B. Saxena, Indian Administrative Service Officer of 1972 Batch of Joint Cadre of Arunachal

Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2008.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 29th July 2008

No. A-32013/6/2007-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) in the Ministry of Home Affairs in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- purely on ad-hoc basis with effect from the date mentioned against their names, until further orders :—

1. Shri S. P. Pant 10.04.2008 (FN)
2. Smt. S. Sudha 25.04.2008 (FN)
3. Shri Brajesh Sikka 30.04.2008 (AN)

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 17th July 2008

No. A. 32013/1/2008-Ad.I(G)Pt.—The President is pleased to appoint Shri Chanan Ram, CSS, as Deputy Secretary purely on an ad-hoc basis, in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/-, in Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 1st July, 2008 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/1/2008-Ad.I(G)Pt.—The President is pleased to appoint Shri Kanad Bhagat, CSS, as Deputy Secretary purely on an ad-hoc basis, in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/-, in Department of Personnel & Training with effect from the afternoon of 27th June, 2008 until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 4th August 2008

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—Consequent upon his transfer from Department of Telecommunications, the President is pleased to appoint Shri Amarjit Singh, a

Grade-I Officer of CSS, as Under Secretary in Department of Personnel and Training in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 23rd May, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Smt. R. Gayathri, a permanent Section Officer of CSS cadre of Department of Posts to Grade-I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the afternoon of 5th May, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Shri G. Srinivasan, a permanent Section Officer of CSS cadre borne on the strength of Ministry of Defence to Grade-I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 4th July, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Shri R. K. Gupta, a permanent Section Officer of CSS cadre of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions to Grade-I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 1st July, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

The 5th August 2008

No. 20/G/1175-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Naresh Narad, IAS (Retd.), presently Member, as Chairman, Public Enterprises Selection Board with effect from the forenoon of 1st July, 2008 for a period upto 4th May, 2009 when he will attain the age of 65 years, or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—Consequent upon his transfer from Ministry of Corporate Affairs, the President is pleased to appoint Shri R. K. Moza, a Grade I Officer of CSS, as Under Secretary in Department of Personnel & Training in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 9th July, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Mukerjee, a permanent Section Officer of CSS cadre of Department of Legal Affairs to Grade

I of CSS (Under Secretary) in Department of Personnel & Training purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the afternoon of 30th June, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 2008

No. 19011/1/2008-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri N. Mohan Ranganathan as Under Secretary and posted in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare with effect from the forenoon of 19th May, 2008 until further orders.

V. K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th July 2008

No. Q/PA-1/50/2008 -Late V. Venkateswara Rao, an officer of Grade IV in the Indian Foreign Service, who was posted as Counsellor in Embassy of India, Kabul, died in service on 07.07.2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 14th July 2008

No. Q/PA-1/51/2008—The President is pleased to appoint the following officers presently in Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of July 02, 2008.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after promotion
1	2	3	4
1.	Ms. Sangeeta B. Mann	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
2.	Shri Ram Kishan Kalra	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
3.	Shri R.L. Koli	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
4.	Shri Anil K. Sharan	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
5.	Shri Achal Kumar Malhotra	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
6.	Shri D. B. Sochi	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS
7.	Shri Vikram Misri	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officers relinquished charge of their post in Grade-IV of IFS on the forenoon of 02.07.2008 and assumed charge of their post in

Grade-III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 4th August 2008

No. Q/PA-1/52/2008—On attaining the age of superannuation, Shri S. L. Sagar, Consul General, St. Denis, retired from Grade IV of the Indian Foreign Service on the afternoon of July 31, 2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-1/53/2008—On attaining the age of superannuation, Shri R. L. Koli, Consul, Consulate General of India, Johannesburg, retired from Grade III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31.07.2008.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th July 2008

No. D-III/460/CF-37/2007 The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Ratheesh C. Nair as Honorary Consul of Russian Federation in Thiruvananthapuram with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ratheesh C. Nair comprises the City of Thiruvananthapuram.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 28th July 2008

No. F 24012/2/2005-PA—In terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005 and in supersession of this Ministry's Notification No. F. 24012/2/2005-PA dated 11th July, 2008 the following Officers are designated as Central Public Information Officers in respect of matters pertaining to Ministry of Overseas Indian Affairs :

1. Deputy Secretary (Admn) All matters relating to Ministry of Overseas Indian Affairs, other than emigration related issues.
2. V. K. Bhatia All matters relating to the office Deputy Secretary of Protector General of Emigrants (Emigration Services) and Offices of Protectors of Emigrants.

M. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 17th July 2008

No. of 2008 (F. No. A-32014/02/2008-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training OM

No. 5/6/2008-CS-II dated 26.05.2008 and Department of Expenditure, Cadre Administration Section's O.M. No. A-32014/1/2008-CAS dated 26.06.2008, the President is pleased to appoint Ms. Krishna Kumari, a regular Steno Grade A&B (merged) of the cadre of Ministry of Agriculture as Principal Private Secretary of CSSS in the pay scale of Rs. 10000-15200/-, on ad-hoc basis, with the effect from 16.06.2008 (FN) and up to 30.06.2008 or till the posts are filled on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Ms. Krishna Kumari to the post of Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely in the post of PPS or to claim any seniority in that post.

BHUPINDER SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 2nd May 2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 27 of 2008 (F. No. A-39012/06/2007-AD.II)—The President is pleased to accept the resignation from Government service tendered by Shri Ganesh Havanur, Additional Commissioner, Customs and Central Excise, Coimbatore with effect from 10.4.2008 (A.N.).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

The 28th May 2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 29 of 2008 (F. No. A-39012/14/2007-AD.II)—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Anil Kumar, JDR, CESTAT, Bangalore with effect from 08.02.2008 (AN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 30th May 2008

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 30 of 2008 (F. No. A-38012/15/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri S. Jankiraman, Assistant Director, Directorate General of Inspection, Customs & Central Excise, West Regional Unit, Mumbai with effect from 01.06.2008 (AN) under Rule 56K of the Fundamental Rules. However, this order would be without prejudice to the disciplinary proceedings which will be continued under Rule 9 of the CCS (Pension) Rules. If there are any other civil or criminal proceedings instituted or contemplated against him, the voluntary retirement will be without prejudice to those proceedings as well.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 28th July 2008

No. 32 of 2008 (F. No. A-38012/22/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri J. B. D'Souza, Assistant Commissioner, Service Tax, Panaji (Goa) with effect from 11.08.2008 (AN) under Rule 48(1) of CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

No. 33 of 2008 (F. No. A-38012/20/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri R. K. Baidya, Deputy Commissioner, Central Excise, Budget Division-I Division, Kolkata-VII with effect from 30.09.2008 (AN) under Rule 48(1) of CCS (Pension) Rules, 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 31 of 2008 (F. No. A-39012/2/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the resignation from Government service tendered by Shri S. Karman posted as Additional Commissioner of Customs, Chennai, with effect from 23.06.2008 (AN) under the Rule 26 of CCS (Pension) Rules, 1972.

ASHOK CHAKRABORTI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 31st July 2008

No. PPG(2154)Admn.I/2008—Shri R. N. Mahato, Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st July, 2008.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 31st July 2008

No. B-4/KB/2003-SIU—Smt. Kamlesh Bhardwaj, Deputy Secretary (CSS), Ministry of Finance, Department of Expenditure, Staff Inspection Unit stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

2. Her name will be struck off from the rolls of this Unit from that date.

B. L. SHARMA, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES COMMISSION

New Delhi, the 1st August 2008

No. 8(2)Estt./2006-MRTPC—Consequent upon his selection to the post of Section Officer (General Central

Service, Group 'B', Gazetted) in the M.R.T.P. Commission, Ministry of Corporate Affairs, Shri Chandan Kumar Jha, Assistant, DCPS/IHQ-Ministry of Defence (Navy), has been appointed to the post of Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 in this Commission on deputation basis w.e.f. the forenoon of 31st July, 2008 for a period of three years or until winding up of the MRTP Commission or until further orders, whichever is earlier.

I. S. SAIN, Jt. Dir. (Eco.)

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)**

New Delhi, the 29th May 2008

No. 15/2008 (A-19011/20/2008-E.I.)—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar Chaudhary, IAS (HY : 77) as Additional Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 29th May, 2008, until further orders.

DR. R. K. MITRA, Dir.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st July 2008

No. 14/2008 F. No. A-11013/01/2008/HRD-1/3469—Sanction of the President is hereby accorded to encadrement of 2 posts of Development Commissioner, one each for the Multi Product SEZ by M/s Surat Special Economic Zone, Surat in the State of Gujarat and the Multi Product SEZ by M/s Sri City Private Limited (Formerly Satyavedu Reserve Infracity Private Limited) at Mandals, Andhra Pradesh into Indian Trade Service (ITS) Group 'A', in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- under administrative control of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) in Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, with effect from date of publication of the notification in the Official Gazette.

2. This issues with the concurrence of Department of Personnel and Training vide ID No. 62/CR(LNB)/2008 dated 28.7.2008 and Department of Commerce vide Order No. A-6(10)/2002-EPZ dated 3rd July 2008.

R. S. GUJRAL, Dir. Gen. of Foreign Trade
and ex-officio Addl Secy.

**(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION)**

New Delhi, the 6th February 2008

No. A-12023/05/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Chandni Raina, a Junior Administrative Grade Officer of the Indian Economic Service, as Joint Director (scale of pay Rs. 12,000-375-16,500) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 14th January, 2008 until further orders.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 7th February 2008

No. A-45011/1/2005-E.I.—Consequent on her nomination to the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion vide Department of Personnel and Training OM No. 5/18/2006-CS.II dated 16.11.2007, on inclusion of her name in the Select List of Steno Grade A&B (Merged) for the year 2004, the President is pleased to appoint Smt. Rama Venkataraman as Private Secretary Steno Grade A&B (Merged) on regular basis in the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion (Ministry of Commerce and Industry) with effect from the forenoon of 1st February 2008, until further orders.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 10th March 2008

No. A-19011/721/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri D. R. S. Chaudhary, IAS (MP : 77) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 1st March 2008, until further orders.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 11th March 2008

No. A-19011/640/2003-E.I.—Consequent on completion of his Central tenure, Shri Arun Kumar Jha, IES (85), relinquished the charge of the post of Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the afternoon of 11th March, 2008.

The services of Shri Arun Kumar Jha are placed at the disposal of the Ministry of Micro, Small and Medium enterprises with effect from the afternoon of 11th March, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 17th July 2008

No. A-12023/01/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Madhu Kosh Sharma, (CSL No. 6240), a regular Section Officer of the CSS Cadre of the Ministry of Development of North Eastern Region (DONER), as Under Secretary (Grade-I of CSS), on ad-hoc basis, until further orders, in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 23rd June, 2008.

The ad-hoc promotion of the officer to the grade of Under Secretary shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I (Under Secretary) of CSS, which is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training's order No. 05.01/2008-CS.I (Desk) dated 20th June, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 30th July 2008

No. A-12012/2/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anuj Kumar Goyal, SDE (C) in Bharat Sanchar Nigam Limited as Additional Private Secretary to the Minister of State for Coal (Shri Santosh Bagrodia) in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- with effect from 30.04.2008 (AN) on co-terminus basis till the Minister requires his services or until further orders, whichever is earlier.

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 1st August 2008

No. 5(7)/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Rastogi, IAS (AP : 74) as Secretary, Ministry of Steel w.e.f. 01.08.2008 (FN) and until further orders.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 1st July 2008

No. 17016/6/95-IFS-II—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and with the concurrence of the Government of Himachal Pradesh and Government of Karnataka, the competent authority has approved the extension of inter cadre deputation of Shri G. C. Hosur, IFS (HP : 96) from Himachal Pradesh Cadre to Karnataka cadre for a period of two years with effect from 20.06.2008.

A. K. LAL, Dir.

The 10th July 2008

No. A.19011/13/2008-IFS.I—The President is pleased to appoint Dr. Ranjana Gupta, an officer belonging to 1986 Batch of Indian Forest Service, Assam-Meghalaya Cadre, to the post of Deputy Inspector General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi w.e.f. the afternoon of 7th July, 2008 for a period upto 24.11.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. LAL, Dir.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 11th July 2008

No. A.38011/1/2008-CHS.I—Consequent upon their retirement on attaining the age of superannuation the following doctors of Regularised Cadre/GDMO Sub-Cadre of Central Health Service holding the post of CMO (NFSG) under Central Govt. Health Scheme, Delhi retired from Government Service on the dates indicated below against their names :—

S. No.	Name of Doctors	Date of retirement	Cadre
1.	Dr. S. K. Jain	30.11.2007 (AN)	GDMO
2.	Dr. A. K. Kanago	31.10.2007 (AN)	Regularized
3.	Dr. (Ms.) Rajni Thusoo	31.12.2007 (AN)	Regularized
4.	Dr. (Ms.) Madhu Asthana	31.10.2007 (AN)	Regularized
5.	Dr. (Ms.) Kusum Mehra	30.11.2007 (AN)	Regularized
6.	Dr. (Ms.) Neelam Sharma	30.09.2007 (AN)	Regularized
7.	Dr. (Ms.) Gulfroze Sharma	31.01.2008 (AN)	GDMO

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 29th July 2008

No. A-12025/27/2006-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Madhavi Mathur Gupta to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, with effect from the forenoon of the 19.3.2007 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 25th July 2008

No. A-19011/2/2008-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri G. Balachandran, IAS (WB : 1977) as Additional Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from forenoon of 18th July, 2008 and until further orders.

ARUN BAROKA, Dir.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th July 2008

No. A-19012/9/2008-EA—The President is pleased to appoint Dr. Dalip Singh, a Junior Administrative Grade (JAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS) on adhoc basis, to the post of Deputy Statistical Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- with effect from 19.05.2008 (FN).

D. K. ROY, Under Secy.

The 17th July 2008

No. A-19012/10/2008-EA—The President is pleased to appoint Shri Som Nath, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Assistant Director, in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, with effect from the forenoon of 30th June, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 18th June 2008

No. 12022/5/2007-E I (Part I)—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, regular Steno Grade 'C' of CSSS to the post of Steno Grade 'A&B' (Merged) (Designated as PS) in the Department of Agriculture & Cooperation on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 30th May, 2008 (F.N.) for a period upto 30.6.2008 or till further orders, whichever is earlier.

2. The promotion is purely on ad-hoc basis and will not confer any claim for regular promotion and seniority in the grade of Private Secretary.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 30th June 2008

No. 27-2798/08-E.I.—The President is pleased to appoint Shri K. L. Lala as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the forenoon of 27th June, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 4th July 2008

No. 27-2484/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Rani Talreja, Under Secretary to the post of Deputy Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 1st July 2008 (F.N.), until further orders.

2. The promotion is purely on ad-hoc basis and will not confer any claim for regular promotion and seniority in the grade of Deputy Secretary.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 23rd July 2008

No. 27-2804/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Uma Goel, CSS (77) as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the forenoon of 23.07.2008, till the date of her superannuation i.e. 31.8.2012 or until further orders, whichever is earlier.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th July 2008

No. 43-3/2007-Hort.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Akali Sema, as Director in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,900/- in the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland under the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture on short term contract basis with effect from the forenoon of 30.07.2008 for a period of not exceeding 5 years or until further orders.

RAM KISHAN, Under Secy.

FISHERY SURVEY OF INDIA

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES)

Mumbai, the 16th July 2008

No. 2-54/2002-E.I.—The undersigned as the Appointing Authority is pleased to promote the following officers to the post of Jr. Fisheries Scientist Gr. II (General Central Service Group 'B' Gazetted—Non-Ministerial) in Fishery Survey of India in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis with effect from the date, shown against each. They are placed on probation for a period of two years w.e.f. the date of their promotion :—

Sl. No.	Name & Designation	Date from which promoted
1.	Shri M. Vinod Kumar Sr. Scientific Assistant	09.01.2006 F.N.
2.	Shri J. Jeyachandra Dhas Sr. Scientific Assistant	12.01.2006 F.N.
3.	Shri Ashok S. Kudam Sr. Scientific Assistant	12.01.2006 F.N.
4.	Shri N. Unnikrishnan Sr. Scientific Assistant	12.01.2006 A.N.
5.	Shri Manas Kumar Surha Sr. Scientific Assistant	12.01.2006 F.N.
6.	Shri Ansuman Das Sr. Scientific Assistant	02.02.2006 F.N.

Dr. V. S. SOMVANSI, Dir. Gen.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 8th July 2008

No. A-19011/6/2008-Estt. —Consequent on her promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training order No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 14th May, 2008, Ms. Rubina Ali has assumed the charge of Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 4th July, 2008.

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

The 1st July 2008

No. A-19011/2/2001 Estt.— Shri Sudesh Kumar, Deputy Secretary, Ministry of Culture, retired from the Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 30.06.2008 (AN)

A. MURUGAIYAN, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110 001, the 11th July 2008

No. A-320134/2008-Estt I.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/1/2008-CS.I (Desk) dated 10.04.2008 and 24.04.2008, the President is pleased to appoint Shri J. K. Sahu, Section Officer of Central Secretariat

Service (CSL No. 6178) cadre of the Ministry of Home Affairs to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in this Ministry on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 10.04.2008 (F/N) until further orders.

2. This adhoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

R. A. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st July 2008

No. 11019/1/2005-Est.(TA)—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12015/3/2008-ISS dated 23.06.2008, the President is pleased to relieve Shri S. K. Das, Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 01.07.2008 to take up his new assignment in Central Water Commission, Ministry of Water Resources, New Delhi.

B. S. KHARMAWPHLAMG, Dir.

New Delhi, the 11th July 2008

No. 11019/1/2005-Est.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12015/3/2008-ISS dated 23.06.2008 and Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) Office Order No. A.19011/5/2004-E.I dated 30.06.2008, the President is pleased to appoint Smt. G. Mythili, Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 01.07.2008.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 003, the 15th July 2008

No. A-12023/2/2006-Est.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer's) number 4/9/2007-EO (MM-1) dated 24th June, 2008, the President is pleased to relieve Shri Shiv Charan Sharma, Private Secretary to Minister of Minority Affairs of his duties w.e.f. 1st July, 2008 (F.N.).

B. D. BARUA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 30th July 2008

No. 2(1)/2007-P.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 04.05.2007, the term of deputation of Shri Bhushan Kumar, Personal Assistant, Department of Information Technology as Private Secretary

in the office of Cyber Regulations Appellate Authority in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- is hereby extended further for a period of one year w.e.f. 04.05.2008 or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 31st July 2008

No. 4(240)/84-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Dr. Avdheesh Mathur, Scientist 'G' in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- (Emp. Code No. 80) in the Department of Information Technology retires from service with effect from afternoon of 31.07.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 4(309)/86-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Jain, Scientist 'F' in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (Emp. Code No. 118) in the Department of Information Technology retires from service with effect from afternoon of 31.07.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

No. 4(165)/81-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri A. S. Sandhu, Scientist 'F' in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- (Emp. Code No. 121) in the Department of Information Technology retires from service with effect from afternoon of 31.07.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 28th July 2008

No. 3917/NIC/2008-Adm-II—Smt. Runisha Pariat, Scientist-B (Emp. Code No. 3917), National Informatics Centre, Meghalaya State Centre, Shillong has expired on 15.3.2003.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (Adm-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st August 2008

No. ERB-I/2007/2/12—The following Selection Grade Officer's of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted to Director's Grade (Scale Rs. 14,300-18,300/-) with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name	Date of joining
1	2	3
	S/Shri	
1.	Maneesh Kumar	21.07.2008 (FN)
2.	Ms. S. R. Sett	15.07.2008 (AN)
3.	N. Soman	15.07.2008 (AN)

1	2	3
4.	R. C. Batra	16.07.2008 (FN)
5.	P. P. Gera	16.07.2008 (FN)

MATHEW JOHN, Secy.,
Railway Board

No. ERB-I/2007/2/12—Shri Madan Lal, Grade-I Officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted to Selection Grade i.e. Joint Director/Deputy Secretary Grade (Scale Rs. 12,000—16,500/-) with effect from the forenoon of 15.07.2008.

MATHEW JOHN, Secy.,
Railway Board

No. ERB-I/2007/2/12-- Shri D. R. Mehra, Director's Grade Officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted to Senior Administrative Grade i.e. Executive Director's Grade (Scale Rs. 18,400—22,400/-) with effect from the forenoon of 16.07.2008.

MATHEW JOHN, Secy.,
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 30th July 2008

No. A-37013/5/2006-E-II—The President is pleased to appoint Shri G. Sharan, Additional Director General of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' presently holding the additional charge of the post of DG (RD) as Director General (Road Development) and Special Secretary on regular basis in the pay scale of Rs. 26,000/- (fixed) in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi with effect from 24.07.2008, until further orders.

K. S. RAO, Under Secy.

No. A-37013/5/2006-E-II - The President is pleased to appoint following officers of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' as Chief Engineers (Civil) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- on regular basis in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi with

effect from the date shown against each, until further orders :—

S.No.	Name of the Officer	Date of appointment as CE (Civil) on regular basis
	S/Shri	
1.	Kamlesh Kumar	24.07.2008
2.	S. K. Marwaha	25.07.2008
3.	R. B. Singh	24.07.2008
4.	Ashok Kumar	24.07.2008
5.	V. L. Patankar	25.07.2008
6.	Chaman Lal	24.07.2008

K. S. RAO, Under Secy.

New Delhi, the 22nd July 2008

No. A-12022/1/2008-E-I—The President is pleased to appoint Shri U. D. Bhargava, Under Secretary, a regular Grade-I officer of Central Secretariat Service as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 w.e.f. 04.07.2008 (A.N.) till further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 4th August 2008

No. 15/2008, (F. No. 12/1/2008-Adm.II)—On attaining the age of superannuation, Shri Khuchan Lal, Deputy Secretary, Ministry of Power retired from Government Service in the afternoon of the 31st July, 2008.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.